

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 410]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 10 अगस्त 2010—श्रावण 19, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2010

क्र. 4709-304-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 9 अगस्त, 2010 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २१ सन् २०१०.

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) अधिनियम, २०१०.

[दिनांक ९ अगस्त, २०१० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक १० अगस्त, २०१० को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

वित्तीय वर्ष २०१०-२०११ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक - ३) अधिनियम, २०१० है.

वित्तीय वर्ष २०१०-११ के लिए राज्य की संचित निधि में से ३४,७६,४२,६७,१०० रुपयों का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कालम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग तीन हजार चार सौ छियत्तर करोड़, बयालीस लाख, सड़सठ हजार, एक सौ रुपये होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के कालम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१०-२०११ के दौरान दिए जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवाएं और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधान सभा द्वारा अनुदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये	
	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	०	९८,०३,९३,०००	९८,०३,९३,०००
०१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व	२,००,५५,०००	३,०१,५०,०००	५,०२,०५,०००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	१,३४,३५,१००	०	१,३४,३५,१००
०३.	पुलिस	राजस्व	१,१०,००,०००	०	१,१०,००,०००
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	६,०१,५०,०००	०	६,०१,५०,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
०५.	जेल	राजस्व	४,५०,०००	०	४,५०,०००
०६.	वित्त	राजस्व	२,६२,२५,१००	०	२,६२,२५,१००
०७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व	६,७२,३४,२००	०	६,७२,३४,२००
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	६,७५,५०,०००	०	६,७५,५०,०००
०९.	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	२,६१,६३,०००	०	२,६१,६३,०००
१०.	वन	राजस्व	१४,६५,२८,०००	०	१४,६५,२८,०००
१२.	ऊर्जा	राजस्व	५१,२०,७९,०००	०	५१,२०,७९,०००
		पूंजी	५,००,००,००,०००	०	५,००,००,००,०००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	१,९५,०४,७५,०००	०	१,९५,०४,७५,०००
१४.	पशुपालन	राजस्व	९८,१०,६०,०००	०	९८,१०,६०,०००
१६.	मछली पालन	राजस्व	८,८७,५९,०००	०	८,८७,५९,०००
१७.	सहकारिता	राजस्व	५९,५४,२२,६००	०	५९,५४,२२,६००
१८.	श्रम	राजस्व	१५,५६,६९,०००	०	१५,५६,६९,०००
१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	२७,१४,३२,०००	०	२७,१४,३२,०००
		पूंजी	७,११,००,७००	०	७,११,००,७००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
२०. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	१७,७४,००,०००	०	१७,७४,००,०००
	पूंजी	१००	०	१००
२१. आवास एवं पर्यावरण	राजस्व	३००	०	३००
	पूंजी	१,४५,३२,०००	०	१,४५,३२,०००
२२. नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय	राजस्व	५,५२,००,०००	०	५,५२,००,०००
२३. जल संसाधन	राजस्व	१,१००	०	१,१००
	पूंजी	१,६३,००,००,०००	१,८३,५३,०००	१,६४,८३,५३,०००
२४. लोक निर्माण कार्य-सडकें और पुल	पूंजी	५४,००,०२,४००	०	५४,००,०२,४००
२५. खनिज साधन	राजस्व	१,३२,८९,०००	०	१,३२,८९,०००
२६. संस्कृति	राजस्व	६,१०,००,१००	०	६,१०,००,१००
	पूंजी	१०,००,०००	०	१०,००,०००
२७. स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राजस्व	४२,८३,५०,०००	०	४२,८३,५०,०००
२८. राज्य विधान मंडल	राजस्व	४,९४,००,०००	५,२९,०००	४,९९,२९,०००
२९. विधि और विधायी कार्य	राजस्व	२,१०,३०,२७,२००	३,३४,६६,१००	२,१३,६४,९३,३००
३०. ग्रामीण विकास	राजस्व	१,०५,५०,०००	०	१,०५,५०,०००
	पूंजी	१७,१६,९०,०००	०	१७,१६,९०,०००
३१. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राजस्व	६९,९७,२५,१००	०	६९,९७,२५,१००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
३२.	जनसंपर्क	राजस्व	४,८५,३९,१००	०	४,८५,३९,१००
३३.	आदिम जाति कल्याण	राजस्व	१००	०	१००
३७.	पर्यटन	राजस्व	८,१०,००,०००	०	८,१०,००,०००
३८.	आयुष	राजस्व	८,०४,७६,५००	०	८,०४,७६,५००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व	२७,००,०००	०	२७,००,०००
४१.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	१,२५,००,०७,७००	०	१,२५,००,०७,७००
		पूंजी	४६,०८,००,४००	०	४६,०८,००,४००
४२.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सडकें और पुल	पूंजी	३००	०	३००
४४.	उच्च शिक्षा	राजस्व	१,५६,७१,८१,५००	०	१,५६,७१,८१,५००
४७.	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	राजस्व	१७,६९,८१,०००	०	१७,६९,८१,०००
		पूंजी	१०,००,००,१००	०	१०,००,००,१००
४८.	नर्मदा घाटी विकास	पूंजी	७००	०	७००
५५.	महिला एवं बाल विकास	राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
५६.	ग्रामोद्योग	राजस्व	१,९३,००,१००	०	१,९३,००,१००
५७.	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें	पूंजी	५,००,००,०००	०	५,००,००,०००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
५८. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व	१,०७,०१,६२,६००	०
			१,०७,०१,६२,६००
६१. बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	राजस्व	३२,०९,०३,०००	०
	पूंजी	१,९३,८१,९६,०००	०
			३२,०९,०३,०००
			१,९३,८१,९६,०००
६४. अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	९८,५५,९३,२००	०
	पूंजी	८,९६,००,१००	०
			९८,५५,९३,२००
			८,९६,००,१००
६५. विमानन	पूंजी	३६,००,००,०००	०
			३६,००,००,०००
६६. पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	३३,४०,६००	०
			३३,४०,६००
६७. लोक निर्माण कार्य—भवन	राजस्व	१२,६९,५८,०००	०
			१२,६९,५८,०००
६९. सूचना प्रौद्योगिकी	राजस्व	११,६०,००,०००	०
			११,६०,००,०००
७२. भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	राजस्व	१,६९,३३,००,०००	०
	पूंजी	१,०३,४२,००,०००	०
			१,६९,३३,००,०००
			१,०३,४२,००,०००
७४. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	४,०५,६६,८०,०००	०
			४,०५,६६,८०,०००
७५. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	१,९३,५५,००,०००	०
			१,९३,५५,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
७७.	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	राजस्व	६,२५,००,०००	०	६,२५,००,०००
७९.	अपरम्परागत ऊर्जा	राजस्व	४,१५,००,०००	०	४,१५,००,०००
	योग :	राजस्व	२२,२४,०२,५३,२००	१,०४,४५,३८,१००	२३,२८,४७,९१,३००
		पूंजी	११,४६,११,२२,८००	१,८३,५३,०००	११,४७,९४,७५,८००
	वृहद योग :		३३,७०,१३,७६,०००	१,०६,२८,९१,१००	३४,७६,४२,६७,१००

यह विधेयक मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक २८ जुलाई, २०१० को पारित किया गया.

यह धन विधेयक है.

भोपाल :
दिनांक : जुलाई, २०१०.

अध्यक्ष
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2010

क्र. 4710-304-इक्कीस-अ-(प्रा.)-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 3) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 21 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 21 OF 2010.

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 3) ACT, 2010.

[Received the assent of the Governor on the 9th August, 2010; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 10th August, 2010.]

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2010-2011.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2010.

Issue of Rs. 34,76,42,67,100 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2010-2011.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Three thousand four hundred seventy six crore fourty two lakh sixty seven thousand one hundred rupees towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the Financial Year 2010-2011 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See Sections 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
	Charged Appropriation-Interest Payments and Servicing of Debt.			
	Revenue	0	98,03,93,000	98,03,93,000
01.	General Administration			
	Revenue	2,00,55,000	3,01,50,000	5,02,05,000
02.	Other expenditure pertaining to General Administration Department			
	Revenue	1,34,35,100	0	1,34,35,100
03.	Police			
	Revenue	1,10,00,000	0	1,10,00,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
04.	Other expenditure pertaining to Home Department			
	Revenue	6,01,50,000	0	6,01,50,000
05.	Jail			
	Revenue	4,50,000	0	4,50,000
06.	Finance			
	Revenue	2,62,25,100	0	2,62,25,100
07.	Commercial Tax			
	Revenue	6,72,34,200	0	6,72,34,200
08.	Land Revenue and District Administration			
	Revenue	6,75,50,000	0	6,75,50,000
09.	Expenditure pertaining to Revenue Department			
	Revenue	2,61,63,000	0	2,61,63,000
10.	Forest			
	Revenue	14,65,28,000	0	14,65,28,000
12.	Energy			
	Revenue	51,20,79,000	0	51,20,79,000
	Capital	5,00,00,00,000	0	5,00,00,00,000
13.	Farmers Welfare and Agriculture Development.			
	Revenue	1,95,04,75,000	0	1,95,04,75,000
14.	Animal Husbandry			
	Revenue	98,10,60,000	0	98,10,60,000
16.	Fisheries			
	Revenue	8,87,59,000	0	8,87,59,000
17.	Co-operation			
	Revenue	59,54,22,600	0	59,54,22,600
18.	Labour			
	Revenue	15,56,69,000	0	15,56,69,000
19.	Public Health and Family Welfare			
	Revenue	27,14,32,000	0	27,14,32,000
	Capital	7,11,00,700	0	7,11,00,700
20.	Public Health Engineering			
	Revenue	17,74,00,000	0	17,74,00,000
	Capital	100	0	100

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
21. Housing and Environment	Revenue	300	0	300
	Capital	1,45,32,000	0	1,45,32,000
22. Urban Administration and Development-Urban Bodies	Revenue	5,52,00,000	0	5,52,00,000
	Capital			
23. Water Resources Department	Revenue	1,100	0	1,100
	Capital	1,63,00,00,000	1,83,53,000	1,64,83,53,000
24. Public Works-Roads and Bridges	Capital	54,00,02,400	0	54,00,02,400
	Revenue			
25. Mineral Resources	Revenue	1,32,89,000	0	1,32,89,000
	Capital			
26. Culture	Revenue	6,10,00,100	0	6,10,00,100
	Capital	10,00,000	0	10,00,000
27. School Education (Primary Education).	Revenue	42,83,50,000	0	42,83,50,000
	Capital			
28. State Legislature	Revenue	4,94,00,000	5,29,000	4,99,29,000
	Capital			
29. Law and Legislative Affairs	Revenue	2,10,30,27,200	3,34,66,100	2,13,64,93,300
	Capital			
30. Rural Development	Revenue	1,05,50,000	0	1,05,50,000
	Capital	17,16,90,000	0	17,16,90,000
31. Planning Economics and Statistics	Revenue	69,97,25,100	0	69,97,25,100
	Capital			
32. Public Relations	Revenue	4,85,39,100	0	4,85,39,100
	Capital			
33. Tribal Welfare	Revenue	100	0	100
	Capital			
37. Tourism	Revenue	8,10,00,000	0	8,10,00,000
	Capital			
38. Ayoush	Revenue	8,04,76,500	0	8,04,76,500
	Capital			

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
39.	Food, Civil Supplies and Consumer Protection	Revenue	27,00,000	0	27,00,000
41.	Tribal Areas Sub-Plan.	Revenue	1,25,00,07,700	0	1,25,00,07,700
		Capital	46,08,00,400	0	46,08,00,400
42.	Public Works relating to Tribal Areas Sub-Plan-Roads and Bridges.	Capital	300	0	300
44.	Higher Education	Revenue	1,56,71,81,500	0	1,56,71,81,500
47.	Technical Education and Training	Revenue	17,69,81,000	0	17,69,81,000
		Capital	10,00,00,100	0	10,00,00,100
48.	Narmada Valley Development	Capital	700	0	700
55.	Women and Child Development	Revenue	1,00,00,000	0	1,00,00,000
56.	Rural Industry	Revenue	1,93,00,100	0	1,93,00,100
57.	Externally Aided Projects pertaining to Water Resources Department.	Capital	5,00,00,000	0	5,00,00,000
58.	Expenditure on Relief on Account of Natural Calamities and Scarcity	Revenue	1,07,01,62,600	0	1,07,01,62,600
61.	Expenditure pertaining to Bundelkhand package	Revenue	32,09,03,000	0	32,09,03,000
		Capital	1,93,81,96,000	0	1,93,81,96,000
64.	Scheduled Castes Sub Plan	Revenue	98,55,93,200	0	98,55,93,200
		Capital	8,96,00,100	0	8,96,00,100
65.	Aviation	Capital	36,00,00,000	0	36,00,00,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
66.	Welfare of Backward Classes			
	Revenue	33,40,600	0	33,40,600
67.	Public Works-Buildings			
	Revenue	12,69,58,000	0	12,69,58,000
69.	Information Technology			
	Revenue	11,60,00,000	0	11,60,00,000
72.	Bhopal Gas Tragedy Relief and Rehabilitation.			
	Revenue	1,69,33,00,000	0	1,69,33,00,000
	Capital	1,03,42,00,000	0	1,03,42,00,000
74.	Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions			
	Revenue	4,05,66,80,000	0	4,05,66,80,000
75.	Financial assistance to Urban bodies.			
	Revenue	1,93,55,00,000	0	1,93,55,00,000
77.	Other expenditure pertaining to School Education Department (excluding Primary Education)			
	Revenue	6,25,00,000	0	6,25,00,000
79.	Non-Conventional Energy			
	Revenue	4,15,00,000	0	4,15,00,000
	Revenue ..	22,24,02,53,200	1,04,45,38,100	23,28,47,91,300
	Capital ..	11,46,11,22,800	1,83,53,000	11,47,94,75,800
	Grand Total ..	33,70,13,76,000	1,06,28,91,100	34,76,42,67,100